

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

## छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 523 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2018 — पौष 10, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

### अधिसूचना

संख्या 75-2018/ राज्य कर

क्रमांक एफ-10-65 /2018/वाक/पांच(122). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 4/2018- राज्य कर, क्रमांक एफ - 10-2/2018/वाक/पांच(3), दिनांक 24 जनवरी, 2018, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 31- अ तारीख 25 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए हैं।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(122). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-65/2018/वाक/पांच(122), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

NOTIFICATION  
No.75/2018 – State Tax

No. F-10-65/2018/CT/V(122) .-In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 4/2018-State Tax, notification No. F-10-2/2018/CT/V(3), dated the 24th January, 2018 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 31-अ, dated the 25th January, 2018, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said details in FORM GSTR-1 between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

अधिसूचना

संख्या 76/2018- राज्य कर

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(123).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 28/2017-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-72/2017/वाक/पांच(122), दिनांक 6 सितम्बर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 404 तारीख 7 सितम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 50/2017 - राज्य कर, क्रमांक एफ - 10-88/2017/वाक/पांच(156), दिनांक 26 अक्टूबर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 469 तारीख 28 अक्टूबर, 2017 में प्रकाशित किया गया था और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 64/2017-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(170), दिनांक 15 नवम्बर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 489 तारीख 15 नवम्बर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत

करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है ।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(123).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-65/2018/वाक/पांच(123), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

### NOTIFICATION

No. 76/2018 – State Tax

No. F-10-65/2018/CT/V (123). - In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017)(hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 28/2017-State Tax notification No. F-10-72/2017/CT/V(122), dated the 6th September, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 404, dated the 7th September, 2017, notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 50/2017-State Tax notification No. F-10-88/2017/CT/V(156), dated the 26th October, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 469, dated the 28th October, 2017, and notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 64/2017-State Tax notification No. F-10-93/2017/CT/V(170), dated the 15th November, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 489, dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR3B for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of

the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues:

Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the months of July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANGEETHA P., Special Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

### अधिसूचना

संख्या 77-2018/ राज्य कर

क्रमांक एफ-10-65 /2018/वाक/पांच(124). – राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 73/2017- राज्य कर क्रमांक एफ-10-98/2017/वाक/पांच(187), दिनांक 29 दिसम्बर, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 581 तारीख 30 दिसम्बर, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 तक की तिमाही के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि में उक्त विवरणी दे दी हैं।”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ-10-65/2018/वाक/पांच(124). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-65/2018/वाक/पांच(124), दिनांक 31-12-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संगीता पी., विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2018

NOTIFICATION

No. 77/2018 – State Tax

No. F-10-65/2018/CT/V (124) .– In exercise of the powers conferred by section 128 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, No. 73/2017-State Tax, notification No. F-10-98/2017/CT/V(187), dated the 29th December, 2017 published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 581, dated the 30th December, 2017, namely:–

In the said notification, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided further the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-4 for the quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
SANGEETHA P., Special Secretary.